



Roll No.
Signature of Invigilator

Paper Code
BSYSMJ-201

पतंजलि विश्वविद्यालय
University of Patanjali

Examination May-June-2014

B.Sc. (Hons.) Yoga Science, Semester: 2nd

Hatha Yoga Parichay-I

Time: 3 Hours

Max. Marks: 75

Note: This paper is of seventy five (75) marks divided into two (02) sections A, and B. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र पचहत्तर (75) अंकों का है जो दो (02) खंडों क, तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

Section - A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न)

Note: Section 'A' contains five (05) long-answer-type questions of fifteen (15) marks each. Attempt any **three** questions. (3×15=45)

नोट : खण्ड 'क' में पांच (05) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पंद्रह अंक निर्धारित हैं। किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. हठयोग का शाब्दिक अर्थ बताते हुए हठ सिद्धि के लक्षण एवं हठयोग की उपयोगिता का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

Explain the literal meaning of Hath Yoga, describe in detail the characteristics of Hath Siddhi and the utility of Hath Yoga.

2. हठप्रदीपिका के वर्णित षट्कर्मों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

Describe in detail the Shatkarmas in Hathpradipika.

3. हठ संहिता में वर्णित किन्हीं आठ आसनों की विधि, लाभ एवं सावधानियों का वर्णन कीजिए।

Describe in detail the method, benefits and precautions of any Eight Asanas describe in Hatha Samhita.

4. हठ प्रदीपिका के अनुसार कुण्डलिनी योग का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

Describe Kundalini Yoga in detail according to Hath Pradipika.

5. हठ संहिता में वर्णित समाधि का वर्णन कीजिए।

Describe the Samadhi describe in Hatha Samhita.

Section - B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु-उत्तरीय प्रश्न)

Note: Section 'B' contains Eight (08) short-answer-type questions of five (05) marks each. Attempt any six (06) questions. (6×5=30)

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच अंक निर्धारित हैं।
किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

6. हठ प्रदीपिका में वर्णित पथ्य-अपथ्य आहार को संक्षिप्त में वर्णित कीजिए।

Briefly describe the healthy and unhealthy diet (Pathya and Apathy Ahar) mentioned in Hath Pradipika.

7. हठयोग की परम्परा एवं इतिहास का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।

Briefly describe the tradition and history of Hath Yoga.

8. हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्यभेदी, उज्जायी एवं शीतली प्राणायाम को संक्षिप्त में समझाइये।

According to Hath Pradipika, explain briefly Suryabhedhi, Ujjayi and Sheetalī Pranayama.

9. हठ संहिता के अनुसार साधक-बाधक तत्व को संक्षिप्त में समझाइए।

Explain Sadhak-Badhak tattva in brief according to Hatha Samhita.

10. हठ प्रदीपिका में वर्णित किन्हीं तीन आसनों की विधि, लाभ एवं सावधानियों का वर्णन कीजिए।

Describe the method, benefits and precaution of any three Asanas according to Hath Pradipika.

11. हठ संहिता के अनुसार किन्हीं तीन मुद्राओं की विधि, लाभ एवं सावधानियों का वर्णन कीजिए।

Explain the method, benefits and precautions of any three mudras described in Hatha Samhita.

12. हठ संहिता के अनुसार मिताहार का वर्णन कीजिए।

Explain the Mitahar according to Hatha Samhita.

13. नादानुसंधान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

Give a brief description of Nadanusandhan.

-----X-----



Roll No.
Signature of Invigilator

Paper Code
BSYSMN-202

पतंजलि विश्वविद्यालय
University of Patanjali

Examination May-June-2024

B.Sc. (Hons.) Yoga Science, Semester: 2nd
Yoga Science
Human Biology-II

Time: 3 Hours

Max. Marks: 75

Note: This paper is of seventy five (75) marks divided into two (02) sections A, and B. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र पचहत्तर (75) अंकों का है जो दो (02) खंडों क, तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

Section - A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न)

Note: Section 'A' contains five (05) long-answer-type questions of fifteen (15) marks each. Attempt any three questions. (3×15=45)

नोट : खण्ड 'क' में पांच (05) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पंद्रह अंक निर्धारित हैं। किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. केन्द्रिय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र की संरचना का विस्तार में वर्णन करें।

Elaborate on the structure of the central nervous system (CNS) & peripheral nervous system.

2. प्रणायाम जैसी विशिष्ट योग तकनीकें तंत्रिका तंत्र की गतिविधि को कैसे प्रभावित कर सकती है।

इसका विश्लेषण करें।

Analyze how specific yoga techniques like breath work (pranayama) can influence nervous system activity.

3. होमियोस्टेसिस बनाये रखने में अंतःस्रावी तंत्र की भूमिका की चर्चा करें।

Discuss the role of endocrine system in maintaining homeostasis?

4. मूत्र प्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करें।

Provide a detailed explanation of the Urinary system.

5. लसीका द्रव की संरचना और कार्य का वर्णन करें।

Discuss the composition & function of lymph fluid.

Section - B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु-उत्तरीय प्रश्न)

Note: Section 'B' contains Eight (08) short-answer-type questions of five (05) marks each. Attempt any six (06) questions. (6×5=30)

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच अंक निर्धारित हैं।
किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

6. सिनैप्स की संरचना और कार्य का संक्षेप में वर्णन करें।

Briefly describe the structure and function of a synapse.

7. सहानुभूति तंत्र और परानुभूति तंत्र में क्या अंतर है?

Explain the difference between the sympathetic and parasympathetic nervous system.

8. थायरॉयड ग्रंथि द्वारा उत्पादित मुख्य हार्मोन कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं?

What are the main hormones produced by the thyroid gland and what are their function?

9. शुक्राणुजनन की प्रक्रिया का वर्णन करें।

Describe the process of spermatogenesis.

10. गुर्दों में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि की व्याख्या करें।

Explain the mechanism of urine formation in the kidneys.

11. लसीका अंगों के प्रकार और प्रतिरक्षा प्रणाली में उनकी भूमिका।

What are the different types of lymph organs and what is their role in the immune system.

12. शरीर रचना को समझने के लिये योग साधना कैसे बेहतर हो सकती है?

Briefly explain how understanding anatomy can improve your yoga practice?

13. स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है?

What is the function of the autonomic nervous system?

-----X-----



Roll No.
Signature of Invigilator

Paper Code
BSYSID-203(A)

पतंजलि विश्वविद्यालय
University of Patanjali

Examination May-June-204

B.Sc. (Hons.) Yoga Science, Semester: 2nd

Fundamentals of Ayurveda

Time: 3 Hours

Max. Marks: 75

Note: This paper is of seventy five (75) marks divided into two (02) sections A, and B. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र पचहत्तर (75) अंकों का है जो दो (02) खंडों क, तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

Section - A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न)

Note: Section 'A' contains five (05) long-answer-type questions of fifteen (15) marks each. Attempt any **three** questions. (3×15=45)

नोट : खण्ड 'क' में पांच (05) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पंद्रह अंक निर्धारित हैं। किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. आयुर्वेद शब्द का वर्णन करते हुए आयुर्वेदिक संहिताओं का उल्लेख करें।

Describe "Ayurveda" with basic introduction of main ayurvedic texts.

2. धारणीय एवं अधारणीय वेगों का उल्लेख करते हुए उनके उपद्रवों का वर्णन करें।

Write about the concept of dharniya & adharniya vega & their complication.

3. आहार का वर्णन करते हुए आयुर्वेदिक आहार का स्वास्थ्य एवं रोकथाम से संबंध का वर्णन करें।

Describe the concept of Ahara and what is the role of ayurvedic diet in health and prevention.

4. दिनचर्या का वर्णन करते हुए उसका महत्व समझाइए व हेमन्त ऋतुचर्या का विस्तार से वर्णन करें।

Write a detailed description on Dincharya & its importance in daily life? Describe about hemant ritucharya.

5. शोधन चिकित्सा के रूप में पंचकर्म का वर्णन करते हुए उसके कार्यक्षेत्र का उल्लेख करें।

Explain the concept of Panchkarma as shodhan chikitsa with its three domains.

Section - B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु-उत्तरीय प्रश्न)

Note: Section 'B' contains Eight (08) short-answer-type questions of five (05) marks each. Attempt any six (06) questions. (6×5=30)

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच अंक निर्धारित हैं।
किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

6. 'अग्नि' शब्द का वर्णन करें।

Describe the word "Agni".

7. आयुर्वेदिक उपचार पद्धति के अनुसार परीक्षण एवं निदान का संक्षेप में वर्णन करें।

Write a brief note on examination and diagnosis in ayurvedic system of medicine.

8. आहार-निद्रा-ब्रह्मचर्य की क्या विशेषताएँ हैं?

What are the characteristics of Ahar, Nidra, Brahamcharya?

9. शोधन चिकित्सा के पश्चात कर्म की व्याख्या करते हुए उसके महत्व को समझाइए।

Write about paschatkarma of shodhan chikitsa & its importance.

10. सद्वृत्त की अवधारणा की व्याख्या करें।

Define the concept of Sadvrita.

11. वैद्य एवं शिष्य की क्या विशेषताएँ हैं?

What are the characteristics of vaidya & shishya?

12. त्रिदोषों की अवधारणा का वर्णन करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इसकी भूमिका का वर्णन करें।

Explain the concept of Tridosha & the role of Tridosha in ayurvedic system of treatment.

13. सुश्रुत संहिता का संक्षेप में वर्णन करें।

Write a brief introduction to Sushruta Samhita.

-----X-----



Roll No.
Signature of Invigilator

Paper Code
BAYSAE-204(A)

पतंजलि विश्वविद्यालय
University of Patanjali

Examination May-June-2014

B.A. (with Yoga Science), Semester: 2nd
B.Sc. (Hons.) Yoga Science, Semester: 2nd

Basics of Sankritam

Time: 3 Hours

Max. Marks: 37

नोट : यह प्रश्नपत्र सैतीस (37) अंकों का है जो दो (02) खंडों क, तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

खण्ड-क

(दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न)

नोट : खण्ड 'क' में पांच (05) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए सात अंक निर्धारित हैं।
किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (3×7=21)

1. पातंजल योग सूत्र का सामान्य परिचय दीजिए तथा कोई पांच सूत्र लिखें।
2. अच् सन्धि एवं हल् सन्धि के कोई दो-दो सूत्र उदाहरण सहित लिखें।
3. हरि, रमा एवं भगवत् के शब्द रूप लिखिए।
4. गम् एवं पठ् धातु के रूप लिखें- लट्, लृट्, विधिलिङ्।
5. वर्णों के स्थान व प्रयत्न के विषय में सूत्र सहित लिखें।

खण्ड-ख

(लघु-उत्तरीय प्रश्न)

नोट : खण्ड 'ख' में दस (10) लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए दो अंक निर्धारित हैं।
किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (8×2=16)

6. गुण सन्धि (आद् गुणः) को उदाहरण सहित समझाइए।
7. एतद् शब्द के नपुंसकलिङ्ग में रूप लिखिए।
8. संस्कृत में एक से दस तक लिखें।
9. लिख धातु के लृट् एवं लट् लकारों के रूप लिखिए।
10. चित्त प्रसादनं के दो सूत्र लिखें।
11. संस्कृत में अपना परिचय लिखें।
12. राम शब्द के रूप लिखें।
13. शब्द की उत्पत्ति व स्वरूप के विषय में बतायें।
14. अनुवाद करें- (क) बालक पुस्तक पढ़ता है। (ख) राम गाड़ी से विद्यालय जाता है।
15. सर्वनाम शब्द क्या है?

-----X-----



Roll No.

Signature of Invigilator

Paper Code
BSYSSE-205
BSYSSE-205(A)

पतंजलि विश्वविद्यालय

University of Patanjali

Examination May-June-2024

B.A. (with Yoga Science), Semester: 2nd
B.Sc. (Hons.) Yoga Science, Semester: 2nd
Yoga Science

Yogasana Sports Evaluation Teaching & Marking System

Time: 3 Hours

Max. Marks: 75

Note: This paper is of seventy five (75) marks divided into two (02) sections A, and B. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र पचहत्तर (75) अंकों का है जो दो (02) खंडों क, तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

Section - A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न)

Note: Section 'A' contains five (05) long-answer-type questions of fifteen (15) marks each. Attempt any three questions. (3×15=45)

नोट : खण्ड 'क' में पांच (05) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पंद्रह अंक निर्धारित हैं। किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. राष्ट्रीय योगासन खेल संगठन की संरचना का वर्णन कीजिए।

Explain the organizational chart of National Yogasan Sports Federation.

2. योगासन स्पर्धा के दौरान स्कोरर सहित अनाउंसर की जिम्मेदारियों का वर्णन कीजिए।

Explain the responsibilities of scorer cum announcer during Yogasan competition.

3. खिलाड़ियों के क्या कर्तव्य होते हैं? वर्णन कीजिए।

What are the obligations of athletes? Explain.

4. योगासन के माइक्रो मार्किंग प्रणाली का वर्णन कीजिये।

Explain the micro marking system of Yogasana.

5. पारंपरिक योगासन स्पर्धा का वर्णन कीजिए।

Explain traditional Yogasan Sports Chart.

Section - B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु-उत्तरीय प्रश्न)

Note: Section 'B' contains Eight (08) short-answer-type questions of five (05) marks each. Attempt any six (06) questions. (6×5=30)

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच अंक निर्धारित हैं।
किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

6. योगासन स्पर्धा में कौन-कौन से इवेंट (स्पर्धाएं) आयोजित की जाती है? नाम लिखिये।

How many events are conducted during Yogasan Competition? Name them.

7. योगासन खेल का लक्ष्य व उद्देश्य क्या है?

What is the purpose and goals of Yogasan Sport?

8. योगासन के डिफिकल्टी लेवल चार्ट के बारे में लिखिये।

Write about the difficulty level chart of Yogasana?

9. खिलाड़ियों के क्या अधिकार हैं?

What are the right of athletes?

10. रिदमिक योगासन पेयर इवेंट के नियमों के बारे में लिखिये।

Write the rules of 'Rhythmic Yogasan Pair' event.

11. प्रतियोगिता के दौरान प्रोटेस्ट करने के लिये क्या नियम हैं?

What are rules regarding protest during a competition?

12. NYSE की एन्टी-डॉपिंग पॉलिसी क्या है?

What is the Anti-doping policy of NYSE?

13. फिटनेस प्रमाण पत्र का नमूना रेखांकित कीजिये।

Draw a sample of fitness certificate.

-----X-----



Roll No.
Signature of Invigilator

Paper Code
BSYSSE-205(C)

पतंजलि विश्वविद्यालय
University of Patanjali

Examination May-June-2024

B.Sc. (Hons.) Yoga Science, Semester: 2nd

Nutritional Therapy

Time: 3 Hours

Max. Marks: 75

Note: This paper is of seventy five (75) marks divided into two (02) sections A, and B. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र पचहत्तर (75) अंकों का है जो दो (02) खंडों क, तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

Section - A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न)

Note: Section 'A' contains five (05) long-answer-type questions of fifteen (15) marks each. Attempt any **three** questions. (3×15=45)

नोट : खण्ड 'क' में पांच (05) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पंद्रह अंक निर्धारित हैं। किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. सकारात्मक बनाम नकारात्मक ऊर्जा संतुलन की अवधारणा और वजन बढ़ने या वजन घटाने से उनके संबंध की व्याख्या करें।

Explain the concept of positive vs negative energy balance and their relationship to weight gain or weight loss.

2. संतुलित आहार का महत्व समझाइये। विटामिन के विभिन्न वर्गों और उनके कार्यों और कमी के लक्षणों पर चर्चा करते हुए उनके अद्वितीय गुणों पर चर्चा करें।

Explain the importance of balanced diet. Discuss the different classes of vitamins and their unique properties while discussing their functions and deficiency symptoms.

3. भ्रूण के विकास और मातृ स्वास्थ्य में सहायता के लिए पोषक तत्वों में विशिष्ट वृद्धि पर चर्चा करें। इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किए जाने वाले आहार विकल्पों के बारे में विस्तार से बताएं।

Discuss the specific increase in nutrients to support foetal development and maternal health. Explain in detail about the dietary choices be adjusted to meet these increased needs.

4. संतुलित आहार की योजना बनाते समय स्थूल पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों की अवधारणा को समझाइए और इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न खाद्य स्रोतों को कैसे शामिल करें।

Explain the concept of macro nutrients and micro nutrients while planning a balanced diet and how to incorporate different food sources to achieve this.

5. वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर शारीरिक गतिविधि स्तर के महत्वपूर्ण प्रभाव पर चर्चा करें। अत्यधिक सक्रिय वयस्कों की आहार सम्बन्धी आवश्यकताएं गतिहीन जीवन शैली वाले लोगों से किस प्रकार भिन्न होती हैं?

Discuss the significant impact of physical activity level on nutritional needs of adults. How do the dietary requirements of highly active adults differ from those with sedentary lifestyle.

Section - B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु-उत्तरीय प्रश्न)

Note: Section 'B' contains Eight (08) short-answer-type questions of five (05) marks each. Attempt any six (06) questions. (6×5=30)

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच अंक निर्धारित हैं।
किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

6. उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाले भोजन की सुरक्षा के बारे में उनकी चिंता पर चर्चा करें।

Discuss the concern of the consumers about the safety of the food they purchase.

7. अन्नप्राशन वाले खाद्य पदार्थों की अवधारणा और महत्व को समझाइये।

Explain the concept and importance of weaning foods.

8. पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में व्यक्तिगत आहार विकल्प क्या भूमिका निभाते हैं।

What role do individual dietary choices play in reducing environmental impact.

9. आहारिय रेशों के दो मुख्य प्रकार बताइये।

Explain two main types of dietary fibres.

10. परिष्कृत अनाज की तुलना में साबुत अनाज से जटिल कार्बोहाइड्रेट के क्या फायदे हैं?

What are the benefits of complex carbohydrates from whole grain cereals compared to refined cereals.

11. आप एक स्तनपान कराने वाली महिला के लिए कौन-से आहार विकल्पों का सुझाव देंगे, जबकि इस बात पर चर्चा करेंगे कि कितनी अतिरिक्त ऊर्जा का सेवन और किन विशिष्ट पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होगी।

What dietary choices would you suggest for a lactating lady while discussing about the how much the additional energy intake and increased amount of which specific nutrients.

12. ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल की क्या भूमिका है?

What is the role of glycerol in triglycerides and phospholipids.

13. कोलेस्ट्रॉल के विभिन्न प्रकार और स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव की व्याख्या करें।

Explain the different types of cholesterol and their impact on health.

-----X-----



Roll No.
Signature of Invigilator

Paper Code
BAYSVA-206/
BSYSVA-206

पतंजलि विश्वविद्यालय
University of Patanjali
Examination May-June-204
B.A. (with Yoga Science), Semester: 2nd
B.Sc. (Hons.) Yoga Science, Semester: 2nd
Yajyopaithy

Time: 3 Hours

Max. Marks: 75

नोट : यह प्रश्नपत्र पचहत्तर (75) अंकों का है जो दो (02) खंडों क, तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

खण्ड-क

(दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न)

नोट : खण्ड 'क' में पांच (05) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पंद्रह अंक निर्धारित हैं।
किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (3×15=45)

1. पंचमहायज्ञ का प्रमाणपूर्वक वर्णन करें।
2. यज्ञ प्रकारों का विस्तारपूर्वक व्याख्या करें।
3. सोलह (16) संस्कारों का नाम व प्रत्येक संस्कार के विषय में क्रमशः संक्षिप्त वर्णन करें।
4. यज्ञ महिमा को तीन शास्त्र प्रमाणों के साथ व्याख्या कीजिए।
5. यज्ञ शब्द का अर्थ व परिभाषा शास्त्र प्रमाणपूर्वक वर्णन कीजिए।

खण्ड-ख

(लघु-उत्तरीय प्रश्न)

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच अंक निर्धारित हैं।
किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (6×5=30)

6. अग्निहोत्र संबंधित कोई पांच श्लोक/सूक्ति अर्थपूर्वक बताएं।
7. यज्ञ चिकित्सा की वैज्ञानिकता का प्रमाणपूर्वक वर्णन करें।
8. किस समय यज्ञ करना चाहिए व न करने पर क्या हानि है? शास्त्र प्रमाणपूर्वक व्याख्या करें।
9. रोगानुसार हवन सामग्रियों के नाम व कौन-सी सामग्री कौन-से रोग में उपयोगी है। व्याख्या करें।
10. पर्यावरण पर यज्ञ के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करें।
11. संस्कृत में गोघृत के तीन नामों का वर्णन तथा तीन समिधा ही क्यों आहुत की जाती हैं?
12. यज्ञ से कृषि व वृष्टि पर प्रमाणपूर्वक व्याख्या करें।
13. माइक्रोबियल पॉल्यूशन पर यज्ञ के प्रभाव पर प्रकाश डालें।

-----X-----